



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

13 भाद्र, 1940 (श०)

संख्या- 844 राँची, मंगलवार

4 सितम्बर, 2018 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

21 जुलाई, 2018

संख्या-4/स्था०पद०-02-13/2014 का. 5471-- श्री श्याम नारायण राम, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 812/03, गृह जिला-पलामू) उप सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची की विभागीय अधिसूचना सं० 5258 दिनांक 13 जुलाई, 2018 द्वारा बासुकीनाथ श्रावणी मेला, 2018 में विधि व्यवस्था संधारण हेतु की गई प्रतिनियुक्ति से विमुक्त करते हुए इनके स्थान पर श्री संजय कुमार भगत, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 821/03, गृह जिला-गुमला) निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, लातेहार को दिनांक 27 जुलाई, 2018 से एक माह तक के लिए अपर जिला दण्डाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया जाता है ।

संख्या-4/स्था०पद०-02-13/2014 का. 5472-- श्री विद्यानन्द शर्मा पंकज, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 770/03, गृह जिला- हजारीबाग) उप सचिव, पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची की विभागीय अधिसूचना सं०- 5258 दिनांक 13 जुलाई, 2018 द्वारा बासुकीनाथ श्रावणी मेला, 2018 में विधि व्यवस्था संधारण हेतु की गई प्रतिनियुक्ति से विमुक्त करते हुए इनके स्थान पर श्री राम प्रवेश कुमार, झा०प्र०से० (चतुर्थ सीमित बैच, गृह जिला-लोहरदगा)

कार्यपालक दण्डाधिकारी, पाकुड़ को दिनांक 27 जुलाई, 2018 से एक माह तक के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया जाता है।

II. उपर्युक्त प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को दण्ड प्रक्रिया संहिता के नियम 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा-20 के तहत दुमका जिला के लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं।

III. संबंधित नियंत्री पदाधिकारी दिनांक 26 जुलाई, 2018 तक प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को उपायुक्त, दुमका के कार्यालय में योगदान हेतु विरमित करने की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

IV. सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारी उपायुक्त, दुमका के कार्यालय में दिनांक 27 जुलाई, 2018 के पूर्वाहन में योगदान सुनिश्चित करेंगे तथा प्रतिनियुक्ति की निर्धारित अवधि के उपरान्त उपायुक्त, दुमका द्वारा विरमित किये जाने के फलस्वरूप अपने पदस्थापन के पद पर योगदान करेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

एच० के० सुधाँशु,
सरकार के अवर सचिव।
